

RailTel/Sectt/21/SE/S-16

Date: July 29, 2025

<p>लिस्टिंग विभाग, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, 'एक्सचेंज प्लाजा', सी-1, ब्लॉक जी, बांद्रा - कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई - 400 051</p> <p>Listing Department, National Stock Exchange of India Limited 'Exchange Plaza', C-1, Block G, Bandra - Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 400051</p>	<p>कॉर्पोरेट संबंध विभाग, बीएसई लिमिटेड, रोटुंडा बिल्डिंग, पी जे टावर्स, दलाल स्ट्रीट, किला, मुंबई - 400 001</p> <p>Corporate Relationship Department, BSE Limited, Rotunda Building, P J Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001</p>
<p>Scrip Symbol- RAILTEL</p>	<p>Scrip Code- 543265</p>

Sub: Submission of Newspaper Publication regarding unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June 2025

Dear Sir/Madam,

Copy of advertisement published in Newspaper (English and Hindi daily) in relation to the unaudited Financial Results for the quarter ended on 30th June 2025 as approved by the Board of Directors in their meeting held on 28th July 2025 are enclosed herewith for your information and record. Copies of the said advertisement are also available on the website of the Company at www.railtel.in.

2. Please take note of the above document on record.

धन्यवाद,

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लिए

जे. एस. मारवाह

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
सदस्यता संख्या – एफ सी एस 8075

संलग्न: ऊपरोक्त अनुसार

वितरण:- 1) सहायक कंपनी सचिव को फाइल में रखने हेतु।

2) सहायक महाप्रबंधक/पी.आर.ओ.को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

CIN : L64202DL2000GOI107905

Registered & Corporate Office : Plate-A, 6th Floor, Office Block, Tower-2, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023
T : +91 11 22900600, F +91 11 22900699 | Website : www.railtelindia.com



PARLIAMENT WATCH

100% FDI TO UNLOCK INSURANCE POTENTIAL: FM

Finance Minister Nirmala Sitharaman on Monday told the Lok Sabha that allowing 100% foreign direct investment (FDI) in insurance would unlock the full potential of the Indian insurance sector and enhance coverage. "With the increase in FDI limit from 74% to 100% for insurance companies, the government aims to unlock the full potential of the sector, which is projected to grow at 7.1% annually over the next five years, outpacing global and emerging market growth," she said in a written reply. In the February Budget, the government had announced the FDI limit would be raised to 100% for companies that invest the entire premium in India. "This is an enabling provision that will allow interested insurers to explore hiking the FDI percentage," she said, adding it would eliminate the need for foreign players to find Indian partners for the remaining 26%, thereby easing entry and boosting insurer numbers. "Removing the FDI cap will attract stable and sustained foreign investment, enhance competition, facilitate technology transfer, and improve insurance penetration," she added.

Jan Dhan Account Holders Covered (As on July 2, 2025)	Atal Pension Yojana As on June 30, 2025
Under PMJJBY 7,16,96,454	Gross Enrollments 7,89,19,845
Under PMSBY 17,32,12,263	Closed Accounts 1,27,14,300

Claims Disbursed Amount in ₹ cr	Under PMJJBY 18,956.80	Under PMSBY 3,203.36
	Transferred to DEA Fund by PSBs	Private Banks

Unified Pension Scheme (UPS) Employees opted:	As on July 20, 2025	Claims Received:	Claims process for payment:
31,555	25,756 retired Central government subscribers eligible to receive additional benefits.	7,253	4,978

Number of KCC Disbursed	FY24: 46,499	FY25: 69,820

Gujarat's 800 MW Thermal Plant Likely by FY30

Gujarat's 800 MW Utki thermal power project is expected to be commissioned by FY30, Minister of State for Power Shri Naik told the Rajya Sabha. Around 328 GVA of additional transformation capacity—92 GVA under inter-state and 136 GVA under intra-state systems—is targeted by FY35. About 44,000 circuit km of transmission lines are also planned by the same period.

Rely on Quarterly GST Numbers for Economic Indicator

The finance ministry told Parliament that quarterly comparison of net GST collections is a more accurate economic indicator than monthly comparisons, as it smooths short-term fluctuations. GST collections in June stood at ₹1.84 lakh crore, up 6.2% year-on-year.

No GST Rate Cut on Flex-Fuel Vehicles

The finance ministry on Monday informed Parliament that the GST Council had discussed a proposal to cut the tax rate on flex-fuel vehicles at its 52nd meeting, but no change was recommended. Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary said the Ministry of Road Transport and Highways has urged all states and union territories to consider exempting or reducing road tax on flex-fuel vehicles to incentivise adoption.

South East Central Railway

E-Tender Notice
E-TENDER NOTICE NO: NIT/14/25/29, dated: 22-JULY-2025
1. Tender No.: 03255188, Description: SUPPLY INSTALLATION, TESTING AND COMMISSIONING OF IP BASED VIDEO SURVEILLANCE SYSTEM, Tender closing/Opening date & time: 08.08.2025 At 10:30 hrs. Qty: 1052 Sets.
2. Tender No.: 03251009, Description: High capacity thermoplastic polyester elastomer (Hytreel) lower washer, Tender closing/Opening date & time: 18.08.2025 At 10:30 hrs. Qty: 9533 Nos.
3. Tender No.: 03251010, Description: Hytreel, Upper Washer for primary suspension, Tender closing/Opening date & time: 18.08.2025 At 10:30 hrs. Qty: 5318 Nos. Railway reserve the right to issue any corrigendum to the tenders. Corrigendum & Important Notice to vendors may be seen in the link www.reps.gov.in. AMM/I For PCMM CPR/10/PR/194 S.E.C.Railway, Bilaspur

South East Central Railway @ecrall

RAILTEL CORPORATION OF INDIA LTD

A Navratna CPSE

Registered & Corporate Office: Plate - A, 6th Floor, Office Block Tower - 2, East Kidwai Nagar, New Delhi - 110023. Phone: 011-22900600 Fax: 011-22900699, Website: www.railtel.in; e-mail: cs@railtelindia.com CIN: L64202DL2000GOI107905

NATION'S DIGITAL TRANSFORMATION PARTNER
25 YEARS IN THE SERVICE OF THE NATION

YoY growth% → Revenue from operations ↑ 33% PAT ↑ 36%

Extract Of Financial Results For The Quarter Ended June 30, 2025 (Rs. in lakhs)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2025 (Unaudited)	30.06.2024 (Unaudited)	31.03.2025 (Audited)	
Revenue from operations	74,381	55,811	1,30,828	3,47,750
Other income	1,435	1,945	2,040	7,354
Total Income	75,816	57,756	1,32,868	3,55,104
Net profit (before tax & exceptional items)	8,589	8,430	13,925	42,350
Net profit (before tax & after exceptional items)	8,931	6,678	15,119	40,178
Net profit after tax	6,610	4,867	11,345	29,981
Total comprehensive income	6,513	4,815	11,112	29,594
Equity share capital	32,094	32,094	32,094	32,094
Other Equity	-	-	-	1,67,868
Earnings per equity share: Basic & Diluted (Rs.)	2.06	1.52	3.53	9.34

Notes:

1. The Board of Directors of the Company, at its meeting held on July 28, 2025 have, inter-alia, approved the Unaudited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2025.
2. The results, along with Limited Review Report thereon, have been posted on the Company's website at www.railtel.in and on the website of Stock Exchange(s) BSE (www.bseindia.com/corporates) & NSE (www.nseindia.com/corporates). Also, it can be accessed by scanning the QR Code given alongside.



Place: New Delhi
Date: July 28, 2025

For RailTel Corporation of India Limited

Sanjai Kumar
Chairman & Managing Director
DIN: 06923630

Services

MPLS VPN, Leased Line, Tower Colocation, Data Centre services, Cloud services, Security Operation Centre services, HD Video Conferencing, Aadhaar-based Authentication Systems, NIC e-Office, Hospital Management Information System, retail broadband RailWire, IT and ICT projects, Railway Signalling projects and many more

A TIMES INTERNET PRODUCT

TimesHealth+

DAILY YOGA & WELLNESS PROGRAM

RECHARGE YOUR HEALTH

☀ Morning & Evening Yoga Batches
Join Any Batch At Your Convenience



Back & Joint Pain Relief



Stress & Anxiety Relief



Weight Control & Metabolism



Energy Boost & Vitality



Early Bird Offer Ends Soon. Book Your Slot Today!



SCAN TO REGISTER

WhatsApp:
+91 92206 04816

Email:
toipluscare@timesinternet.in

Get in touch for Employee Wellness & Corporate Plans



WAAREE ENERGIES LIMITED
BSE LISTED: 544277 | NSE LISTED : WAAREENER

WAAREE®
One with the Sun

Transforming Sunshine into Purpose, Progress and Power!



Solar Panel EPC Energy Storage Renewable Power Generation & Infrastructure
Solar Cell Inverter Green Hydrogen Data Center

Particulars	CONSOLIDATED				STANDALONE				Year Ended	
	Quarter Ended		Year Ended		Quarter Ended		Year Ended			
	30-06-2025	31-03-2025	30-06-2024	31-03-2025	30-06-2025	31-03-2025	30-06-2024	31-03-2025		
Revenue	4,597.18	4,140.92	3,496.41	14,846.06	3,567.10	3,482.50	3,278.37	13,218.46		
Profit for the period (before exceptional items and tax)	943.36	849.48	530.53	2,568.66	882.96	776.48	504.46	2,396.36		
PAT	772.89	644.47	401.13	1,928.13	659.89	580.52	371.80	1,781.17		
EPS (Basic in ₹)	25.94	21.59	14.98	68.24	22.97	20.23	14.13	65.09		

Note: All figures are in ₹ Crores except for EPS

Registered Office:
602, Western Edge-I, Off: Western Express Highway, Borivali (E), Mumbai - 400066, Maharashtra, India
CIN:L29248MH1990PLC059463

Contact us:
+91 80 97 15 53 00 | 022 69395500
www.waaree.com | investorrelations@waaree.com

Scan to Download Financial Result

RESULTS CORNER

Arvind Fashions Q1 profit jumps multi-fold, revenue grows 16%

VIVEAT SUSAN PINTO
Mumbai, July 28

ARVIND FASHIONS REPORTED a multi-fold jump in profit for the June quarter, driven by steady demand across its apparel and accessory brands. Net profit for Q1FY26 stood at ₹13 crore, up from ₹1 crore in the same period last year. Net sales rose 16% year-on-year (y-o-y) to ₹1,107 crore, compared with ₹955 crore a year ago, led by a stronger push through direct channels. This resulted in an 8.1% like-for-like (same-store) sales growth in Q1, along with over 30% growth in online B2C channels, the company said on Monday.

Gross margins expanded by 60 basis points (bps) year-



STEADY DEMAND

■ Net profit for Q1FY26 stood at ₹13 cr, up from ₹1 cr in the same period last year

■ Net sales rose 16% y-o-y to ₹1,107 cr, compared to ₹955 cr a year ago

SHAILESH CHATURVEDI, MD & CEO, ARVIND FASHIONS
We re-energised our brands by investing higher in marketing, leading to stronger awareness and higher footfalls along with market share gains

on-year (y-o-y) to 55.9%, aided by lower consumer discounting. Arvind Fashions sells an array of brands, including Arrow, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, US Polo Assn., and Flying Machine. One basis point is one-hundredth of a percentage point.

Earnings before interest, tax, depreciation, and amortisation (Ebitda) rose 20.3% y-o-y to ₹148 crore in Q1 from ₹123 crore reported last year, supported by operational efficiencies. Ebitda margins improved by 50 bps y-o-y to 13.4% in Q1, despite 140 bps higher advertising spends y-o-y.

"Q1 FY26 witnessed a bright start to the year," Shailesh Chaturvedi, MD & CEO, Arvind Fashions, said. "We re-energised our brands by investing higher in marketing, leading to stronger awareness and operating leverage."

Adani Green Q1 profit surges 60%

RAGHAVENDRA KAMATH
Mumbai, July 28

ADANI GREEN ENERGY (AGEL) posted a 60% jump in net profit at ₹713 crore in Q1FY26 as compared to ₹446 crore in Q1FY25. Analyst estimates were not available for the company's earnings.

Its total revenue from operations jumped 36% to ₹3,800 crore in Q1FY26 as compared to ₹2,794 crore in Q1FY25. The firm's earnings before interest, taxes, depreciation, and amortisation (EBITDA) also went up 28% to ₹3,042 crore in Q1FY26 as compared to ₹2,379 crore in Q1FY26.

"During Q1 FY26, AGEL added 1.6 GW of greenfield renewable energy (RE) capacity, bringing total increase to 4.9 GW over the past year," which is unmatched in India's energy transition," Ashish Khanna, CEO of AGEL said. As of Q1, the company's total renewable energy capacity stood at 15.8 GW.

"Our investments in the massive renewable energy development at Khavda in Gujarat as well as other resource-rich sites are delivering results both in terms of superior operational performance and industry-best EBITDA margins," Khanna added.

ASHISH KHANNA,
CEO, AGEL

Our investments in RE development in resource-rich sites are delivering results in operational performance and Ebitda margins

AGEL is on track to achieve its 2030 target of 50 GW RE capacity with at least 5 GW of hydro pumped storage along with battery storage, he said.

Further, battery storage is also a key part of its future strategy, adds Khanna.

The greenfield additions over the last one year included 3.7 GW of solar capacity including 2.46 GW in Khavda, 1.05 GW in Rajasthan and 250 MW in Andhra Pradesh; 585 MW wind capacity in Khavda and also a 534 MW of solar-wind hybrid capacity in Khavda.

KRISHNA BAROT
Ahmedabad, July 28

AHMEDABAD-BASED TORRENT Pharma on Monday posted an 11% year-on-year (y-o-y) growth in revenue at ₹3,178 crore in the first quarter of FY26, from the corresponding period's revenue of ₹2,859 crore.

Its operating earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA) jumped 14% this quarter to ₹1,032 crore compared to the year-ago period, which includes an acquisition-related one-off expense of ₹15 crore. The gross margin stood at 76%, while the operating Ebitda stood at 32.5%.

Profit after tax (PAT) for the pharmaceutical firm was recorded at ₹548 crore, a 20% growth from the corresponding period's ₹457 crore.

Torrent's international revenues also witnessed substantial growth this quarter, with Brazil revenues rising 11% to ₹218 crore, Germany's growing 9% to ₹308 crore and the US' by 19% to ₹308 crore.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Its operating earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation (EBITDA) jumped 14% this quarter to ₹1,032 crore compared to the year-ago period, which includes an acquisition-related one-off expense of ₹15 crore. The gross margin stood at 76%, while the operating Ebitda stood at 32.5%.

Profit after tax (PAT) for the pharmaceutical firm was recorded at ₹548 crore, a 20% growth from the corresponding period's ₹457 crore.

Torrent's international revenues also witnessed substantial growth this quarter, with Brazil revenues rising 11% to ₹218 crore, Germany's growing 9% to ₹308 crore and the US' by 19% to ₹308 crore.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Torrent's international revenues also witnessed substantial growth this quarter, with Brazil revenues rising 11% to ₹218 crore, Germany's growing 9% to ₹308 crore and the US' by 19% to ₹308 crore.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.

Growth in Germany spurred due to a supply disruption by a third-party supplier, while Torrent's recent launches in the US market has achieved target market shares. Shares of the company grew by 0.73% at the NSE, closing at ₹3,630 from yesterday's close of ₹3,603.800.</

